



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 29 जून, 2016/8 आषाढ़ 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated, the 1st March, 20 16

No. TPT-F (I)-2/2001-III.—An Agreement between the States of Himachal Pradesh and Uttarakhand is proposed to be entered with respect to operations of Stage Carriage vehicles (buses) by the operators of one state into the territory of the other state as required under Sub Section (5) of Section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988.

Now, therefore, in fulfillment of the requirements of the sub-section 5 of Section 85 of the Motor Vehicle Act, 1988, a notice as in Annexure-A herewith is published for the information of the persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given to the persons likely to be affected by the said reciprocal agreement between the States of Himachal Pradesh and Uttarakhand that objections/ suggestions in this regard, if any, be sent to the Additional Chief Secretary (Transport) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002 within 30 days from the date of publication of this notice in the official Gazette of Himachal Pradesh. Objections received after the prescribed time shall not be entertained.

By order,
AJAY MITTAL,
Additional Chief Secretary(Transport).

ANNEXURE-A

1. That there shall be no Stage Carriage operations by the private operators of either state in or through the territory of the other State.
2. The operations by the State Transport Undertaking (s), by whatever name these may be known, of one state in the territory of the other state shall be as follows:--
 - a. Operations of Himachal Road Transport Corporation in Uttarakhand.

Sr. No.	Name of Route	Via	Name of Depot	No. of Trip	Single Mileage	K.M. per day
1.	Dehradun-Bajjnath	Nahan	Bajjnath	1 RT	45	90
2.	Dehradun-Shimla	Nahan	Nahan	1 RT	45	90
3.	Dehradun-Harsipattan	Nahan	Una	1 RT	45	90
4.	Dehradun-Amritsar	Nahan	Nahan	1 RT	45	90
5.	Dehradun-Chandigarh	Nahan	Nahan	2 RT	45	180
6.	Dehradun-Dharamshala	Nahan	Nahan	1 RT	45	90
7.	Dehradun-Chamba	Nahan	Chamba	1 RT	45	90
8.	Dehradun-Dharamshala	Nahan	Dharamshala	1 RT	45	90
9.	Dehradun-Manali	Nahan	Nahan/Kullu	2 ST	45	90
10.	Dehradun-Bajjnath	Nahan	Nahan	1 RT	45	90
11.	Dehradun-Paonta	Nahan	Nahan	2 ST	45	90
12.	Dehradun-Shimla	Nahan	Nahan	1 RT	45	90
13.	Tanakpur-Shimla	Saharanpur	Shimla Rural	1 RT	294	588
14.	Tanakpur-Manali	Saharanpur	Kullu	1 RT	294	588
15.	Haridwar-Nalagarh	Saharanpur	Nalagarh	1 RT	44	88
16.	Haridwar-Manali	Nahan	Sundernagar	1 RT	100	200
17.	Haridwar-Rohroo	Vikasnagar	Rohroo	1 RT	305	610
18.	Haridwar-Chopal-Shimla	Vikasnagar	Taradevi	1 RT	305	610
19.	Haridwar-Shimla	Nahan	Nahan	1 RT	100	200
20.	Haridwar-Rohroo	Nahan	Rohroo	1 RT	100	200
21.	Haridwar-Manali	Saharanpur	Mandi	1 RT	44	88

22.	Haridwar-Sarkaghat	Nahan	Sarkaghat	1 RT	100	200
23.	Haridwar-Dharamshala	Saharanpur	Dharamshala	1 RT	44	88
24.	Haridwar-Palampur	Saharanpur	Palampur	1 RT	44	88
25.	Haridwar-Hamirpur	Saharanpur	Hamirpur	1 RT	44	88
26.	Haridwar-Sarkaghat	Nahan	Bilaspur	1 RT	100	200
27.	Haridwar-Chamba	Saharanpur	Chamba	1 RT	44	88
28.	Haridwar-Manali	Saharanpur	Kullu	1 RT	44	88
29.	Haridwar-Dhramshala	Saharanpur	Dehra	1 RT	44	88
30.	Haridwar-Shimla	Saharanpur	Solan	1 RT	44	88
31.	Haridwar-Bajjnath	Saharanpur	Bajjnath	1 RT	44	88
32.	Haridwar-Jangalberri	Nahan	Bilaspur	1 RT	100	200
33.	Haridwar-Rohroo	Nahan	Rohroo	1 RT	100	200
34.	Haridwar-Pathankot	Nahan	Pathankot	1 RT	100	200
35.	Haridwar-Hamirpur	Saharanpur	Hamirpur	1 RT	44	88
36.	Haridwar-Nagrota	Saharanpur	Nagrota	1 RT	44	88
37.	Haridwar-Recong Peo	Saharanpur	Recong Peo	1 RT	44	88
38.	Haridwar-Pathankot	Saharanpur	Pathankot	1 RT	44	88
39.	Haridwar-Manali	Saharanpur	Sundernagar	1 RT	44	88
40.	Haridwar-Karsog	Saharanpur	Shimla Rural	1 RT	44	88
41.	Haridwar-Keylong	Nahan	Keylong	1 RT	10	20
42.	Haridwar-Shimla	Saharanpur	Taradevi	1 RT	44	88
43.	Haridwar-Sarahan	Nahan	Rampur	1 RT	100	200

b. Operation of Uttarakhand Transport Corporation in Himachal Pradesh:

Sr. No.	Name of Route	Single Trip	No. of Permits	Distance one sided in Himachal	K.M. Per day
1.	Dehradun-Paonta via Vikasnagar	8	4	1	8
2.	Dehradun-Paonta	10	5	1	10
3.	Haridwar-Shimla via Saharanpur-Chandigarh	10	10	90	900
4.	Dehradun-Paonta via Nahan	2	1	48	96
5.	Ruperia-Shimla via Saharanpur-Chandigarh	8	8	90	720
6.	Haridwar-Manali via Saharanpur-Chandigarh	2	2	236	472
7.	Haridwar-Rohroo via Dehradun Tyuni	2	2	26	52
8.	Srinagar-Shimla via Saharanpur-Chandigarh	2	2	90	180
9.	Haridwar-Nahan-Shimla via Paonta	2	2	191	382
10.	Tanakpur-Shimla via Saharanpur-Chandigarh	2	2	90	180
11.	Dehradun-Manali via Paonta-Chandigarh	2	2	300	600
12.	Dehradun-Katra via Paonta-Chandigarh	2	2	69	138

13.	Dehradun-Shimla via Paonta-Nahan	2	2	191	382
14.	Tanakpur-Dehradun-Paonta	2	2	1	2
15.	Tanakpur-Dharamshala via Haridwar-Saharanpur-Chandigarh-Ropar-Nangal-Kangra-Dharamshala	2	2	172	344
16.	Dehradun-Dharamshala via Paonta-Chandigarh	2	2	233	466
17.	Haridwar-Dharamshala via Haridwar-Saharanpur-Chandigarh-Ropar-Nangal-Kangra-Dharamshala	2	2	172	344
18.	Tanakpur-Manali via Saharanpur-Chandigarh	2	2	236	472
19.	Srinagar-Dehradun-Vikasnagar-Paonta	2	2	1	2
20.	Kotdwar-Dehradun-Vikasnagar-Paonta	2	2	1	2
21.	Bahpur-Kashipur-Dehradun-Paonta	2	2	1	2
22.	Dingling-Dehradun-Paonta-Chandigarh-Dhramshala	2	2	233	466
23.	Dehradun-Paonta-Chandigarh	20	10	62	1240
24.	Massorie-Dehradun-Nahan-Shimla	2	2	191	382
25.	Haldwani-Dehradun-Paonta Sahib	2	1	1	2
26.	Haldwani-Dehradun-Paonta -Chandigarh	2	2	62	124
27.	Haldwani-Ramnagar-Haridwar-Saharanpur-Shimla	2	2	90	180
28.	Shergarh-Dehradun-Paonta	2	1	1	2
29.	Rishikesh-Dehradun-Paonta	2	1	1	2
30.	Roorki-Dehradun-Paonta	2	1	1	2
31.	Massorie-Dehradun-Paonta-Chandigarh	2	1	62	124
32.	Haridwar-Saharanpur-Shimla-Rampur	2	2	90	180
33.	Haridwar-Dehradun-Paonta	10	5	1	10
34.	Dehradun-Tiyuni-	2	2	115	230

	Shimla				
35.	Dehradun-Paonta-Chandigarh-Ludhiana	2	2	62	124
	TOTAL	124	94	3212	8822

3. In addition to the above routes, if a State Transport Undertaking propose to start operation on any other route in the territory of the other State, it shall through the Transport Authorities of its State make an application to the State Transport Authority of the other State who will countersign the requisite permit for such route without any need for amending or reentering this agreement and on such countersignature being granted, this Agreement shall be deemed to have been modified to that extent.

HOME DEPARTMENT
Section-B

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th June, 2016

No. Home-B (A) 1-3/2004-(27).—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to create one post of Driver to be filled up on daily wage basis in the office of Advocate General, Himachal Pradesh with immediate effect.

By order,
Sd/-
Principal Secretary (Home).

समक्ष तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री मान सिंह पुत्र श्री उत्तम राम, निवासी राहड, डाकघर खददर, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीक दोयम।

श्री मान सिंह पुत्र श्री उत्तम राम, निवासी राहड, डाकघर खददर, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम मान सिंह है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल राहड में प्रार्थी का नाम पान सिंह लिखा गया है जो गलत है अब नाम दुरुस्ती दर्ज करवाने बारे निवेदन किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती दर्ज करने बारा कोई उजर एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 11-7-2016 को 10 बजे इस अदालत में हाजिर हो कर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 18-06-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
लडभडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 11-07-2016

श्री सदा नन्द पुत्र श्री जय प्रकाश, निवासी व डाकघर कोलंग, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र।

श्री सदा नन्द पुत्र श्री जय प्रकाश, निवासी व डाकघर कोलंग, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी की वास्तविक जन्म तिथि 02-03-1991 है, जो स्कूल प्रमाण-पत्र तथा परिवार रजिस्टर भाग-1 में भी दर्ज है परन्तु ग्राम पंचायत खददर के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिसे दर्ज करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इशतहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म तिथि को दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 11-07-2016 को प्रातः 10.00 बजे असातन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपना उजर या एतराज पेश करें अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 18-06-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील लडभडोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री राम स्वरूप पुत्र श्री नराता राम, निवासी निहालगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रकरण संख्या : 91/16

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राम स्वरूप पुत्र श्री नराता राम, निवासी निहालगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र जितेन्द्र की जन्म तिथि 23-09-96 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत निहालगढ़ में अपने पुत्र की जन्म तिथि 23-09-96 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री जितेन्द्र की जन्म तिथि ग्राम पंचायत निहालगढ़, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 20-07-16 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि

उक्त श्री जितेन्द्र की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-06-16 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती मधुबाला पत्नी श्री राजकुमार, निवासी वार्ड नं0 3, कुम्हार मोहल्ला (नालागढ़), तहसील नालागढ़, जिला सोलन वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती मधुबाला पत्नी स्व0 श्री राजकुमार, निवासी वार्ड नं0 3, कुम्हार मोहल्ला (नालागढ़), तहसील नालागढ़, जिला सोलन (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपने पति स्व0 श्री राजकुमार की मृत्यु तिथि 12-07-14 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ—पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत मिस्सरवाला में अपने ऊपर वर्णित पति श्री राजकुमार की मृत्यु तिथि 12-07-14 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री राजकुमार की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत मिस्सरवाला, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 20-07-16 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री राजकुमार की मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-06-16 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री सलीम अली पुत्र श्री रहमदीन, निवासी भगानी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रकरण संख्या : 89/16

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सलीम अली पुत्र श्री रहमदीन, निवासी भगानी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी जन्म तिथि 29-08-93 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत भगानी में अपनी जन्म तिथि 29-08-93 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री सलीम अली की जन्म तिथि ग्राम पंचायत भगानी, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 20-07-16 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री सलीम अली की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-06-16 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री शेर सिंह पुत्र श्री परस राम, निवासी शिवपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रकरण संख्या : 87/16

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री शेर सिंह पुत्र श्री परस राम, निवासी शिवपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से उसकी जन्म तिथि 15-01-63 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत शिवपुर में अपनी जन्म तिथि 15-01-63 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री शेर सिंह की जन्म तिथि ग्राम पंचायत शिवपुर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 20-07-16 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री शेर सिंह की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16-06-16 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

कुसुम देवी पुत्री श्री रामस्वरूप, निवासी बांगरन, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रकरण संख्या : 85/16

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

कुसुम देवी पुत्री श्री रामस्वरूप, निवासी बांगरन, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से उसकी जन्म तिथि 06-04-92 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत फूलपुर में अपनी जन्म तिथि 06-04-92 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कुसुम देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत फूलपुर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 20-07-16 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त कुसुम देवी की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16-06-16 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री संजय कुमार पुत्र श्री खुशीराम, निवासी ब्यास, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रकरण संख्या : 86/16

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री संजय कुमार पुत्र श्री खुशीराम, निवासी ब्यास, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से उसकी जन्म तिथि 09-12-94 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत कोटड़ी ब्यास में अपनी जन्म तिथि 09-12-94 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री संजय कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोटड़ी ब्यास, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 20-07-16 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा

मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री संजय कुमार की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16-06-16 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

Ms. Phuntsok Dolma पुत्री श्री Tsering, निवासी 12-S.T.S, पुरुवाला, तहसील पांवटा साहिब,
जिला सिरमौर वादी

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी

प्रकरण संख्या : 84/16

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Ms. Phuntsok Dolma सपुत्री श्री Tsering, निवासी 12-S.T.S, पुरुवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से उसकी जन्म तिथि 13-07-95 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत सालवाला में अपनी जन्म तिथि 13-07-95 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को Ms. Phuntsok Dolma की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सालवाला, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 20-07-16 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त Ms. Phuntsok Dolma की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16-06-16 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती गुरमीत कौर पुत्री श्री दौलत सिंह, निवासी आम्बवाला सिंघपुरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला
सिरमौर वादी।

बनाम

प्रकरण संख्या : 83/16

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती गुरमीत कौर सपुत्री श्री दौलत सिंह, निवासी आम्बवाला सिंघपुरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से उसकी जन्म तिथि 10-10-65 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत शिवपुर में अपनी जन्म तिथि 10-10-65 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को गुरमीत कौर की जन्म तिथि ग्राम पंचायत शिवपुर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 20-07-16 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त गुरमीत कौर की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16-06-16 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री राम प्रसाद पुत्र श्री चेत राम, निवासी ब्यास, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर प्रतिवादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रकरण संख्या : 88/16

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राम प्रसाद पुत्र श्री चेत राम, निवासी ब्यास, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने भाई सुख राम पुत्र चेत राम की मृत्यु तिथि 10-02-2005 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत ब्यास में अपने ऊपर वर्णित भाई की मृत्यु तिथि 10-02-2005 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को स्व0 श्री सुख राम की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत ब्यास, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 20-07-16 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री सुख राम की मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16-06-16 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।